

**GUARANTOR FORM / जमानतदार प्रपत्र**

सदस्यता क्रमांक

खाता सं.

नाम/ Name

पिता/ पति/ पत्नी/ Father/Spouse Name

माता का नाम / Mother Name

बैंक खाते के अनुसार नाम / Name mentioned as per bank account

जन्मतिथि: Date of Birth

आयु. Age

वर्ष / Year

Affix Self  
Attested  
Passport  
Size Photo  
Here

Signature

राष्ट्रीयता/ Nationality : भारतीय/ Indian/ अन्य/ other ..... लिंग/ Gender पुरुष/ महिला M/F.....

वैवाहिक स्थिति/ Marital Status : अविवाहित/ Unmarried / विवाहित/ Married / तलाकशुदा/ Divorced / अलग रहता या रहती है / Separated .....

धर्म/ Religion..... जाति/ Caste: अनु.जाति / ST / अनु. जनजाति / SC / अन्य पिछड़ा वर्ग / OBC / सामान्य/ General

शिक्षा/ Education : अशिक्षित/ Illiterate / प्राइमरी/ Primary/ हाईस्कूल / 10th / इण्टरमीडिएट / 12th / स्नातक / Graduate /

परास्नातक / PG / तकनीकी / Technical.....

**रोजगार/ व्यवसाय का विवरण / Employment / Business Details**

पेशा/ Occupation: वैतनिक/ Salaried/ स्वरोजगार/ Self-Employed

कुल मासिक आय रु./ Gross Monthly Income Rs..... शुद्ध मासिक आय/ Net Monthly Income Rs.....

नियोक्ता का नाम/ व्यवसाय/ Name of employer/business .....

कब से काम कर रहा है / Working Since..... वर्ष/ Year.....

**पहचान और पता का प्रमाण पत्र / Proof of Identity and Address**

पहचान प्रमाण पत्र/ Identity Proof document:.....

सं. / No.:.....

पता का प्रमाण पत्र / Address Proof document:.....

सं. / No.:.....

स्वामित्व का प्रमाण पत्र/ Ownership Proof document:.....

सं. / No.:.....

**घर और व्यवसाय स्थल का पता/ Client Home and Business Address****घर का पता/ Home Address**

\_\_\_\_\_

पहचान चिन्ह/ Land Mark \_\_\_\_\_

पिन कोड/ PIN Code \_\_\_\_\_

मोबाईल/ Mob. \_\_\_\_\_

वैकल्पिक फोन नं. / Alternative Ph.No. \_\_\_\_\_

ई.-मेल/ E-mail \_\_\_\_\_

इस पते पर कब से रह रहा है / Residing since \_\_\_\_\_ years

घर का स्वामित्व/ House Ownership : स्वयं/ Own

भाडे का/ Rented/ अन्य/ Others \_\_\_\_\_

मकान की स्थिति/ House type : कच्चा/ Kachha.....

आधा पक्का/ Semipakka पक्का / Pakka.....

**व्यवसाय स्थल का पता/ Business Address**

\_\_\_\_\_

पहचान चिन्ह/ Land Mark \_\_\_\_\_

पिन कोड/ PIN Code \_\_\_\_\_

मोबाईल/ Mob. \_\_\_\_\_

वैकल्पिक फोन नं. / Alternative No. \_\_\_\_\_

ई.-मेल/ E-mail \_\_\_\_\_

**Residential / Permanent Address**

इस पते पर कब से रह रहा है / Residing since \_\_\_\_\_ years

परिसर का स्वामित्व/ Ownership of Premises : स्वयं/ Own,

भाडे का/ Rented/ अन्य/ Others \_\_\_\_\_

परिसर की स्थिति/ Business Premises type : कच्चा/ Kachha

आधा पक्का/ Present Address पक्का/ Pakka.....

जमानतदार के हस्ताक्षर  
Guarantor's Signatureसह-आवेदक के हस्ताक्षर  
Co-Applicant Signatureआवेदक के हस्ताक्षर  
Applicant Signature

## ऋण/जमानत का विवरण / Existing Loan / Guarantee Details

क्या आपने कोई ऋण लिया है/ Have you taken any loan: हाँ/Yes / नहीं/No

क्या अभी ऋण चल रहा है/ Is the loan active: हाँ/Yes / नहीं/No

क्या आपने किसी ऋण का जमानत लिया है/ Have you guaranteed on any other loans: हाँ/Yes / नहीं/No

अगर लिया है तो किसके लिए और कितने राशि का / If Yes, for whom and for what amount.....

## घोषणा / Declaration

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिया गया विवरण एवं जानकारी सभी प्रकार से सत्य एवं सही है ।

ऋण और जमानत के सारे शर्तों को समझने के बाद मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती .....

के ऋण का जमानतदार बनता/बनती हूँ ।

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि अगर ऋणधारक ऋण का भुगतान नहीं करता है तो मैं ऋणधारक की ओर से ऋण का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ और जिम्मेदार हूँ।

I hereby certify that all information provided above is true and valid

I hereby certify that, I fully understand the responsibility of guaranteeing a loan of Mr/Ms/Mrs..... and fulfill all the terms and conditions mentioned in the loan and guarantor agreement.

I hereby certify that, In case the client failed to repay the loan. I will repay on behalf on him/her. I will also be held responsible and liable to Pay the outstanding balance to SWAPNPURTI NIDHI LIMITED. on behalf of the client.

I certify that the text content of this Guarantor form are explained to me in \_\_\_\_\_ (language) by the employee of SWAPNPURTI NIDHI LIMITED. and I am signing it after fully understanding its meaning.

## Guarantor Terms and Conditions:

1. These are the terms which apply to the guarantee and indemnity you will give us. Once the Borrower's agreement has been entered into the Guarantee and Indemnity will be legally binding, so if there's anything that you don't understand, you need to ask us now.
2. Before you agree to provide this guarantee and indemnity you should read the pre-contract credit information that we have given you.
3. We will pay you the loan amount for you to pay to the borrower. You will pay the borrower the amount they borrowed when you receive it from us.
4. You should agree that if the borrower fails to make any payment under the borrower's agreement to us on the agreed payment date, you will on demand immediately make that payment.
5. You should guarantee that if we demand you will immediately meet all of the borrower responsibilities under the borrower's agreement and guarantee that the borrower will carry out all their responsibilities due and owing under the borrower's agreement.
6. As well as the points above and as a separately enforceable responsibility, you will indemnity (protect) us and keep us indemnified against any losses, claims, damages or expenses resulting from or arising out of the borrower's agreement or if the immediately pay us any loss if we demand it.
7. Your responsibilities under the guarantee and indemnity are the same as if you were a borrower This means we do not have to make any demand on, or take any steps against, the borrower or any other person, before seeking payment from you under this guarantee and indemnity.
8. If you or the borrower breach any terms of this agreement or the borrowers agreement we may send the borrower a default notice (and send you a copy). On expiry of that notice, we may close the account and demand immediate payment of the full debt.

जमानतदार के हस्ताक्षर  
Guarantor's Signature

सह-आवेदक के हस्ताक्षर  
Co-Applicant Signature

आवेदक के हस्ताक्षर  
Applicant Signature

9. We may also take court action against both you and the borrower. If we obtain judgment, we may apply for an attachment of earning order (where we have the court's permission to get your employer to pay us out of your Salary). warrant of execution (which may involve a bailiff visiting your property), property charging order (where we get rights to be paid out of the money paid when you sell your property)

**जमानतदार दस्तावेज विवरण / Guarantor Document Details**

संलग्न दस्तावेज Attach Security	जारी करने वाला प्राधिकरण Issuing Authority	दस्तावेज नं. Document No.
Kisan Vikas Patra		
Fixed Deposit		
Life Insurance Policy		
PDC (Bankers, Cheque No.		
Other Securities		

**जमानतदार के लिए / For Guarantor**

**कार्यालय उपयोग हेतु / For Office Use Only**

मैं सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त जमानतदार से मिला / मिली हूँ तथा जमानतदार को ऋण और जमानत की शर्तें तथा जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताया हूँ तथा उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर बनाया ।

I hereby certify that I have personally met the Guarantor and explained the terms & conditions of the loan and Guarantor's liability and responsibility. He/She has signed in front me.

Name of the CSO \_\_\_\_\_

Signature of CSO \_\_\_\_\_

Date: .....

Employee ID \_\_\_\_\_

**क्रेडिट ब्यूरो चेक / Credit Bureau Check (For Office Use Only)**

जमानतदार Guarantor	जाँच हुआ है Check Conducted	हाँ / Yes <input type="checkbox"/> नहीं / No <input type="checkbox"/>
	परिणाम Result	सकारात्मक <input type="checkbox"/> / नकारात्मक <input type="checkbox"/> Positive / Negative
		/ कोई रिकार्ड नहीं मिला <input type="checkbox"/> / No Record Found

Name of the CSM \_\_\_\_\_

Signature of CSM \_\_\_\_\_

Date: .....

Employee ID \_\_\_\_\_